



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1947 (श10)
(सं0 पटना 1197) पटना, मंगलवार, 8 जुलाई 2025

कृषि विभाग

अधिसूचना

4 जुलाई 2025

विषय :- कृषि विभाग अन्तर्गत प्रशाखाओं के पुनर्गठन के संबंध में।

सं० 03/कृ0वि0 (विविध)-02/2025-3301/कृ०—वर्तमान में कृषि विभाग अन्तर्गत कुल तेरह (13) प्रशाखा गठित एवं कार्यरत हैं। कृषि विभाग में कृषोन्मुखी योजनाओं में लगातार वृद्धि, आगामी कृषि रोड मैप की तैयारी, पूर्व के कृषि रोड मैप की लक्ष्य प्राप्ति एवं डाटा का संग्रहण तथा प्रेषण तथा अन्य संलग्न कार्यालयों यथा के अधीन महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित संचिकाओं का विधिसम्मत उपस्थापन हेतु पूर्व से स्वीकृत 20 प्रशाखा पदाधिकारी का पदबल के आलोक में अतिरिक्त प्रशाखाओं के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसके लिए सात अतिरिक्त प्रशाखाओं के गठन का प्रस्ताव है। साथ ही दिनांक-10.06.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही का मद संख्या-01 अन्तर्गत दो प्रशाखा पदाधिकारी का पद स्वीकृत करने के आलोक में कृषि विपणन निदेशालय हेतु दो प्रशाखाओं का भी गठन त्वरित रूप से किया जाना है।

2. विभिन्न प्रशाखाओं एवं कोषांगों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के समीक्षोपरान्त कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक संख्या-2759 दिनांक-28.02.2019 द्वारा कृषि विभाग एवं इसके संलग्न कार्यालय हेतु बिहार सचिवालय सेवा के स्वीकृत पदबल के आलोक में प्रशाखाओं का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

(क) सचिवालय संभाग

क्र०सं०	प्रशाखा तथा नाम	प्रशाखा में किये जाने वाले कार्य
1.	प्रशाखा-01 (राजपत्रित स्थापना)	बिहार कृषि सेवा कोटि-01, 02, 03, 05, 07, 08 एवं 09 के वर्ग-‘क’ एवं ‘ख’ के राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति/पदस्थापन/स्थानान्तरण/वरीयता निर्धारण/प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति लाभ एवं अन्य संबंधित कार्य।
2.	प्रशाखा-02 (निगरानी शाखा राजपत्रित)	बिहार कृषि सेवा कोटि-1, 2, 3, 5, 7, 8 एवं वर्ग-9 के वर्ग-‘क’ एवं ‘ख’ के राजपत्रित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी वाद एवं चारित्री एवं अन्य संबंधित कार्य।
3.	प्रशाखा-03 (मुख्यालय स्थापना)	मुख्यालय स्थापना, माननीय मंत्री, कृषि का स्थापना एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भा०प्र०से० तथा बि०प्र०से० के पदाधिकारियों से संबंधित कार्य, बिहार सचिवालय सेवा तथा बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा का स्थापना, कृषि विभाग, सचिवालय संभाग के कार्यालय तथा डाटा इण्ट्री ऑपरेटर का स्थापना/सी०ए०जी० लोक लेखा से संबंधित कार्य, कृषि विभाग के सभी सवर्ग का चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं विवेकानुदान, पेंशन एवं सेवान्त लाभ संबंधी बैठक एवं अन्य संबंधित कार्य।
4.	प्रशाखा-04 (समन्वय शाखा)	संसदीय एवं विधान मंडलीय संबंधी कार्य। विभागीय बोर्ड एवं निगम/बिहार राज्य कृषि विपणन पर्वद (वि०) एवं अन्य संबंधित कार्य।
5.	प्रशाखा-05 (विधि शाखा)	न्यायालय वाद एवं विधि संबंधी कार्य का संधारण, समीक्षा एवं अनुश्रवण, राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य मुकदमा नीति-2011 एवं अन्य संबंधित कार्य।
6.	प्रशाखा-13 (लोक सूचना-सह-जनशिकायत शाखा)	कृषि विभाग (सचिवालय संभाग) के सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, जनशिकायत एवं ई-कम्प्लायन्स डैश बोर्ड तथा अन्य संबंधित कार्य।
7.	प्रशाखा-14 (अधीनस्थ सेवा स्थापना)	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-01, 02, 03, 05, 07, 08 एवं 09 के वर्ग-‘ख’ के अराजपत्रित पदाधिकारियों की स्थापना एवं सेवांत लाभ से संबंधित सभी कार्य एवं अन्य संबंधित कार्य।
8.	प्रशाखा-15 (निगरानी शाखा अराजपत्रित)	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1, 2, 3, 5, 7, 8 एवं वर्ग-9 के वर्ग-‘ख’ एवं ‘ग’ के अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के संबंध में निगरानी वाद एवं चारित्री से संबंधित कार्य एवं अन्य संबंधित कार्य।
9.	प्रशाखा-16 (स्थापना लेखा)	माननीय मंत्री का उपस्कर, विवेकानुदान भुगतान सचिवालय संभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मियों के वेतनादि/यात्रा विपत्र/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/आकस्मिक विपत्र का भुगतान, विश्वविद्यालय के वेतनादि का भुगतान संबंधी, मुख्यालय के लेखन सामग्री एवं विविध सामग्रियों, विद्युत सामग्री, कम्प्यूटर संबंधी ई-ऑफिस से संबंधित सभी कार्य, मोटर गाड़ी का क्रय, विभागीय वाहन का आवंटन एवं कैश बुक संधारण, संबंधी एवं अन्य संबंधित कार्य।
10.	प्रशाखा-17 (बजट शाखा)	मुख्य शीर्ष-2401, 4401, 8401, 3451, 2415, 3475, 2402, 2435, 2013 से संबंधित सभी प्रकार के कार्य। जेन्डर, परिणाम एवं ग्रीन बजट/योजना उद्ब्य, बजट प्राक्कलन अनुपूरक आगणन, आकस्मिकता निधि एवं पुर्नविनियोग/CFMS एवं HRMS एवं अन्य से संबंधित कार्य एवं अन्य संबंधी कार्य।
11.	प्रशाखा-18 (यू०सी०/ए०सी०/डी०सी०/सी०ए०जी०/लोक लेखा)	कृषि विभाग अन्तर्गत कार्यालयों से प्राप्त सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं आर०आई०डी०एफ० तथा ए०सी०, डी०सी० का मामला तथा राज्य स्तरीय प्रतिवेदन तथा लेखा सत्यापन। कृषि विभाग के लोक एवं वित्त लेखा तथा सी०ए०जी० से संबंधित कार्य एवं अन्य संबंधी कार्य।

क्र०सं०	प्रशाखा तथा नाम	प्रशाखा में किये जाने वाले कार्य
12.	प्रशाखा-19 (पी०पी०एम० शाखा)	कृषि विभाग अन्तर्गत सभी राज्यस्तरीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के उद्ध्यय का निर्धारण/योजना की स्वीकृति से संबंधित कार्य/कृषि रोड मैप, पूर्वोदय रोड मैप विकसित बिहार से संबंधित कार्य/बिहार विकास मिशन, वित्त विभाग एवं योजना एवं विकास विभाग को रिपोर्ट भेजना एवं अन्य संबंधी कार्य।
13.	प्रशाखा-20 (कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शाखा)	कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित योजना, गैर योजना, विधि, एवं अंकेक्षण, पलैक्सी फंड, कृषि रोड मैप, विभिन्न कृषि संस्थान, ICAR, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा अन्य संबंधित कार्य।

(ख) कृषि निदेशालय

क्र०सं०	प्रशाखा तथा नाम	प्रशाखा में किये जाने वाले कार्य
1.	प्रशाखा-06 (अराजपत्रित स्थापना एवं निगरानी शाखा)	क्षेत्रीय स्थापना, कृषि समन्वयक, लिपिक,क्षेत्र/प्रक्षेत्र सहायक/जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता/चतुर्थवर्गीय कर्मी का स्थापना/इससे संबंधित कोर्ट केस, शिकायत एवं अन्य संबंधित कार्य उपरोक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के संबंध में निगरानी वाद एवं चारित्री एवं अन्य संबंधित कार्य।
2.	प्रशाखा-07 (निदेशालय मुख्यालय स्थापना)	मुख्यालय स्तरीय निम्नवर्गीय एवं उच्चवर्गीय लिपिक, लेखापाल, चालक, डाटा इण्ट्री ऑपरेटर, चतुर्थवर्गीय कर्मी का स्थापना, ऑडिट एवं अन्य संबंधित कार्य।
3.	प्रशाखा-08 (यांत्रिकरण एवं अभियंत्रण शाखा)	कृषि यांत्रिकरण से संबंधित केन्द्र प्रयोजित तथा राज्य योजना का सूत्रण, कार्यान्वयन, बैठक, प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित कार्य। बिहार विकास मिशन/कृषि यांत्रिकरण मेला/OFMAS डेवलपर का स्थापना/यूनिट कॉस्ट कमिटी/कृषि यंत्रों का सत्यापन एवं निर्माताओं से प्राप्त आवेदन/योजना अंतर्गत आरोप एवं अन्य संबंधित कार्य
4.	प्रशाखा-09 (बीज एवं कीटनाशी अनुज्ञप्ति प्रशाखा)	बीज संबंधित केन्द्र प्रयोजित तथा राज्य योजना का सूत्रण, कार्यान्वयन, बैठक, प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित कार्य। बीज/कीटनाशी का अनुज्ञप्ति, नवीकरण इंडोर्समेंट एवं अन्य संबंधित कार्य।
5.	प्रशाखा-10 (फसल एवं प्रक्षेत्र शाखा)	फसल एवं प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन एवं अन्य संबंधित योजना का सूत्रण, कार्यान्वयन, बैठक, प्रतिवेदन से संबंधित कार्य। प्रजनक बीज का भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण, सीड इंडेन्ट लोकेशन प्रक्षेत्र कैलेन्डर एवं फार्म मैप, भूमि का अंतर विभागीय हस्तान्तरण एवं अन्य संबंधित कार्य।

(ग) भूमि संरक्षण निदेशालय

1.	प्रशाखा-11 (भूमि संरक्षण स्थापना शाखा)	भूमि संरक्षण निदेशालय संबंधी योजना, स्थापना, बजट, पेंशन एवं अन्य संबंधित कार्य।
2.	प्रशाखा-12 (भूमि संरक्षण गोपनीय शाखा)	भूमि संरक्षण निदेशालय से संबंधित लेखा शाखा/गोपनीय अभियुक्ति/आरोप/चारित्री/राज्य योजना संबंधी कार्य/अंकेक्षण/कोर्ट केस/निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित कार्य।

(घ) कृषि विपणन निदेशालय

1.	प्रशाखा-21 (स्थापना, बजट एवं लेखा शाखा)	कृषि विपणन निदेशालय में पदस्थापित सभी कर्मियों के स्थापना संबंधित सभी कार्य। स्थापना में पदस्थापित कर्मियों के भुगतान/विपत्र/लेखा/बजट/संबंधित सभी कार्य।
2.	प्रशाखा-22 (योजना, शोध एवं बाजार प्रांगण विकास शाखा)	विपणन निदेशालय अन्तर्गत संचालित सभी प्रकार के योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण से संबंधित सभी कार्य, बाजार प्रांगण एवं विकास से संबंधित सभी कार्य।

3. यह व्यवस्था आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।
4. शेष कोषांग अगले आदेश तक यथावत कार्यरत रहेंगे।
5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1197-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>